निमत्तुकएवयासेष्व·ऽग्रज्ञहणं प्रतन्त्रेत्वात्येह्रस्वस्येति दुर्गम्यमाहूत्यर्थं उच्चैरु नात्र श्रु
तिकृतमुच्चैस्त्वमपां स प्रयोऽर्ष्यासेः श्रुतिप्रकर्षस्यावस्थितत्वाच्च किं तु स्थानकृतमु
च्चैरित्याधिकरणशक्तिप्रधानमधिकरणत्वं चोच्चारणं प्रति तच्चताल्वादीनां सभागत्वे
एवेत्याशये नाहताल्वादीति इदं प्राचामनुरोधेन वर्णसमाम्नाये ऽकारस्य प्राथम्यात्
कंठादीति वक्तुमुचितं एवमन्यत्रापि बोध्यम् प्रयत्नप्रेरितो वायुर्यदोर्ध्वभागे प्रतिहन्ते
चेंबं जयति । तदासउदात्त इति भावः ऽग्रजितिऊकालइत्यत स्तरउवर्तते उदात्त
ल्वादीनामङ्गुधर्मतापा लोकएव प्रसिद्धत्वेन हल्स्वरप्राप्तौ व्यंजनस्याविधमानत्वा
च्चेदं स्वरूपकथनपरं बोध्यम् ऽप्राय इति यच्छब्दः फिषोन्तइत्यंतोदात्तः जस्तुष्टा
दनुदात्तः शकारादेशाउदात्तेनेत्येकार उदात्तः ऽग्नीदिति ऽग्राभिमुख्यं वाच्यभूत्यर्थं
फिषोन्तइत्यंतोदात्तं ऽग्राद्यस्य शेषनिघातेनानुदात्तत्वम् ...र्वेतमेचतीत्यर्थे...

त्रि

केतादृशीना[illegible]मिति भावः ऊकालोच कुकुटरुते उकारस्यैकद्विमात्रत्वप्रसिद्धे
रकारादयो नोक्ता ऊइतिएकद्वित्रिमात्राणांक्रमेणप्रश्लेषनिर्देशः व्याख्यानात् तेनस्वो
च्चारणकालसदृशोलक्ष्यते सकालो यस्येति बहुव्रीहिस्तत्फलितमाह उश्च ऊश्चेति नक्
[illegible]कालो ह्रस्व इति वाक्यैरात्वात्सवर्णग्रहणे द्वित्रिमात्रयोरपि ह्रस्वसंज्ञापां प्रसापप्लु
येत्याद्यो ह्रस्वस्य पिति तुक् स्यादिति चेन्न ऊच्प्रजि तेवाज्ग्रहणसामर्थ्याद्ध्रूसदृशोऽज्नि
त्यर्थसादृश्यस्य व्याख्यानात्कालकृतस्यैवग्रहणमिति सिद्धे च्प्राधिकंकालग्रहणमच्चा
रितसंबंधिकालसदृशकालकस्यैवसंज्ञानतु तेनग्र हीतसंबंधिकालसदृशकालक
स्यापीत्यर्थलाभात् तदुक्तं भाष्ये यावत्तपरकरणं तावदच्कालग्रहणं इति न चाजि
ति वर्णग्रहणे जातिग्रहणस्य दुर्वारत्वापत्तिः तन्न[illegible]त्र नित्यत्र दीर्घात्पदान्ताद्वेति तुगा
प्राप्तिरिति वाच्यं ज्ञापकासिद्धत्वेन तस्यासार्वत्रिकत्वात्[illegible]न्तरंगत्वेन ह्रस्वत्वनिमित्त

किंच सर्वैः सर्वार्थद्रुत्यभ्युपगमो योगिदृष्ट्या नास्मदृष्ट्या सर्वशब्दानामर्थानांच विशिष्य ज्ञातत्वाना
भावात् सामान्यतस्तथाज्ञानं न बोधोपयोगि शास्त्रं त्वस्मदादेरुद्देशेनैव प्रवृत्तमिति बोध्यम् विशे
षतन्त्रैव संकेतग्राहकशास्त्रकरणं स्वेच्छयैवेत्येषां यदृच्छाशब्दत्वेन स्वाच्छन्द्यत्वेन व्यवहारः स्वेच्छ
यासंज्ञाः क्रियन्त इति चरणतदुपदेशरूपसंकेतात्प्राक् तत्र संज्ञात्वाग्रहणेन तासामनित्यत्वव्य
वहारः अत एव तत्तत्संज्ञाकरणं ज्ञानरूपप्रकरणादन्यार्थग्रहणरूपं नियमः। कृत्रिमाकृत्रि
मन्यायमूलत्वोक्तिः संख्यासंज्ञासूत्रे भाष्ये आर्थिकमेवाके नियममादाय संज्ञासूत्रे वृत्तिप
मत्वव्यवहारो व्यवहारायनियमः संज्ञायाः संज्ञिनिक्वचिदित्यादिनाकृतः वाचकताकृतत्वे
पि तदनुत्पादकत्वान्न शब्दार्थसंबंधनित्यताहानिः आसां च शि[illegible]प्रयुक्तत्वात्साधुत्वमि
त्यन्यत्र विस्तरः कार्यकालपक्षेपि मृजेर्वृद्धिरित्यादौ वृद्धिपदार्थजिज्ञासायां वृद्धिरादैजित्या
द्युपस्थित्या तदर्थबोधरूपेशान्तिः गृहे वृत्ते विधिवाक्यार्थबोधः अत एव ष्यङः संप्रसारणमि
ति सूत्रे भाष्ये कार्यकालं संज्ञापरिभाषं यत्रस्यात्तत्रोपस्थितमिदं भवतीति यच्चिममितीत्युक्तमिदं

करणात् ऋदोरचित्वादेदकारस्यैवेति न दोषः सच पंचमीसमासाभावे तकारइवोच्चारणार्थे मुखसु-
सुखार्थो वा तपरसूत्रे दकारप्रश्लेषपक्षे तु धकारादिस्थानिको दकारो बोध्यः वृद्धिरिति वृद्धिरादैजि-
ति पदत्रयमिति । न समासोंतादिप्रवृत्तिशंका तपरकरणमसंदेहार्थं तपरत्वार्थं प्रकृतसूत्रे भाष्ये
ऽत्र शास्त्रे गुणनामभेदकत्वं ज्ञापकादाप्त्यस्य सवर्णग्रहणार्थत्वाभाव [illegible] कृतत्वात् हृस्यैत्केअंग
ओ घइत्यादेस्त्रिमात्रव्यावृत्तये तपरार्थमपि वृद्धिशब्दोऽत्र तपरपरोऽर्थपरत्वासंभवात् अदैज्विपदा चो॰५
मिन्नेति या वा स्या [illegible]ः पदपदार्थयोस्तादात्म्यस्यांगीकारात् रामेति शब्दं नाम मानभंगः पि ज्ञा वृत्
इत्याहे तयोरभेदप्रतीतेरनुभवसिद्धत्वादि सन्यत्र विस्तरः वृद्धिशब्दस्य संज्ञात्वं तु व्याख्यानादि-
धेयत्वेपि तस्य पूर्वपाठो मंगलार्थः अप्रकृत एकालित्यादेस्तथाकरणे विधेयस्य प्रथमं प्रयोजे-
साधुत्वभ्रमवारणाय इति भाष्यस्पष्टम् सर्वशब्दानां सर्वार्थवाचकत्वेपि वाचकत्वस्य गृही
तस्य तस्यैव [illegible] बोधजनकत्व सवर्ण [illegible] बोधनेन [illegible] आप्रवृत्तिः [illegible] तो
मित्यादि [illegible] तथा संज्ञासूत्राणां ज्ञानशक्तिज्ञापकतया विधित्वम्

स
७

हैं रही देहमें पोहि ॥ १४ ॥ उतमतीनोंनासुमथ्यामानोंईडापिंगला।
सुषमनाजानोंवामानाडीईडाससिसंगदत्तलपिंगलासूरज।
संगनाडीसुषमनासंकररूपपरमहंससोईमेभूरूपनिरोम
पवनहकारकहियाहोतप्रवेसमसकारलहियेंसंभुहकारस
कारभवानीसोहंजापजपननेंजानेंसक्तिरूपसासिवामप्र
वाहदत्तिनभानसेमुउरगाहपरमविविदनजोकोईयोमी
हैसरसापियेंसोअरोगीक्तिनवामेंछिनदत्तिन ॥ आवेनाडी।

७

स्वकईनाड़ीमहितमुजैभाईकथीनाड़ीप्रथमईड़ामसानदहि
नीयपिंगलासत्मनाजानीई ड़ापिंगलासखम्नाजानीगंधा
रीअरुहस्तनीवघानीपेनाड़ीजिह्वाकायोगानजनीयामैंसे
मयकोईनमानीपूषानाड़िमप्रमीमेलीअष्टमीनहांअलंबार
लीकूविजाअैपरमेसनीतथावरनौंवायकाअनयथाप्रान
अपानसमानउयानव्यानगाजैमकूरमजान॥२३॥दोहा दे
वदत्नअरुकिरकलादसमिधनंजयहैंपंचप्रानअप्रेसकल

अ

नामसप्तमनामावैतानाडीमैश्रग्निनिवासीध्याननविनासककर्म।
समभनासीजलनाकालरूपसोथरेविधवतकाजनामसमभक
है॥२५॥दोहा॥नानाडीलवलायकेंवससध्यानमनदेयजोसमसंषि
साधेमलीश्रनवनसवनतहांलेय॥२६॥भाषनगौरिसेमध्यति
वानीपिंडउत्तानसवकसावसवानीनेंसुसवभेदनासिकाभाष्यो
सोविस्तारनकिंचि॥नरारवोकिंहिविधनामुसाधनाकीमेकि
हिंप्रकार॥श्रध्यानमहोजेमुनिसेदरसवविहिकीवानाजिहि

स
ए

श्रुभ्यामसदासुखदाताजोगुनसुरचंद्रब्रह्मांडमोगुनव्याममानुषपिं
डितेसरवरंभनामसकादीनोकोईपकवामदत्तिनपुनिकीनोदत्तन
भानचेद्धउत्रापेनपलटतदेनोयुपनेत्रापनकवहेकेनाडीद
ननसुरवहेकवहेकवामयवनम्रवगाहेराकटोरदेनानदिव
लश्रापसमेनेकवहनरलेजोकदाचिंमदिनउन रउपजेभारीथा
वनवेगवदवनमानरी॥२४ दोहा॥ किंवाकामविलासवड़करतज्ञ
वनिकोसंग॥ उभयपयानमिलततवदेनोनरईदूरसंग॥२८

त २
८

ग्रा० १ को १

प्र

जाकंतमहोमग्रंथकाईतोकोंपहविधकहूनवनाईदविनरंध्रतू
लसोरोकैंम्रूहोरैनसवग्राममलोकेंउपजेसीततनमसवनासेंचंद
प्रवाहन[illegible]नम्रभासेनम्रचंद्ररविसोनलताईमिटैदोनेंसरफेरव
हाईह्वितीयभातिसरफेरनकीजेज्ञोसरचलेदिसामेलीजेयसो
ईथाउपुहमिसोलावैक्रवीकहनतेंकफुवलपावैयंगणीहा
घभिनसवकीजेकेकुपंकभारहमिपर्दीजेजोसरवदनहो
त[illegible]सोरंहैमाकृतम्रेमानहांग्रवमहैग्रोरपुनिसैनमेंनिहिं

म

भांतिवदलेपवनकहैहैंकवातजोस्वरचलैसैननताकीजैनाडीसुषमनुर्ध
कौंदीजै ॥ २४ ॥ दोहा पलटैपवनमनोवल वहैंउपरकै अंगगता
स्वरसैनप्रमानकीयअर्धमारतपेग ॥ २५ ॥ जोकाईदिवससंचंद्रस्वर
क्काडेस्वसजयवनहृदेमेंगाडेयोनिससद्राभानपरवाहै ॥ ऐसीकि
यासदानिवाहैतौसभरोगसिथलनाजेतीअस्नसीसमैपीडाके
तीअतीआतापअधिकसीतगासाययक्रियाहेतसभअंगाटो।
नाटामननिहिनवमाईवीकुपंनगविषनचटाईतरिणापनति

गरुसौंपावैंनोवङ्गरूपभालटद्दशाईनापकैंफिरीमसलकजांऐप
हूंचैरूपमूधनीमाहिंप्रगीयरैतमाधकीक्रांहिसरगपनालहुगि
मैंदेवैविंदेवच्यपक्षरामभकौपरैवैंनोग्रनरूपनतत्रतिकेरैविद्यमा
नमवउलखेतेरेजवहिंद्रहिकौजाईमागू मानकीवातकहारे
रे॥दोहा॥ह्रहिपहिकौजापकैनलखैआगमआनस्वर्गमूमि।
पातालकीस्तुयियरैसोईजानु २५ जवववयुग्रयदछिमैंआवैष
रतपासिफिरप्रगटदिखावैजोकहूविद्याहपसेमारनेसर्वतहो

स॰ ॥

ईसे चार किरत होभानु देप रिषाई होपमेजक कूमदन रहाई आपाहू
टपब्रह्मसमाई पदवी अलखसोपहं चेजाई राकवर्षयह जवनविचा
रे आपन मरे काल कों मारयराकवर्ष मे आवै हाथमा ॥ ययसि
हतेजसवसाथ वर्ष राकवार मायक जो मोई वृद्ध केका मसे
मारी कर यकिं द्रवान नंभयवितये रे वृद्ध तीन योगीय है थिर्थसा
धी ब्रह्मलीन भये लाय समाधी चालीस दिवस गाये मकामय
विर्जु अलेख न होआ भावै समय हि विधा वितन आनै होपम्रह

त्र

सामाचकरमानै ॥३१॥ दोहा मोहनपहकारनीमटीमसहलभमः
इद्दिहेतग्रलसदमगकपदपरमकडंद्रीमः ॥इसचेत॥४॥
कामनरितजोकरेसुमाननामा॥ग्रग्रलखेपहध्यानसहनेकर्त
चितग्रत॥ननाईखिमपनमदनमोदनपजाईखेतफलज्ञाके
चारहोयनामाग्रमध्यानकरेमोईलखनमरूपचखपलक
नमारेपुगवीमीदिनध्यानविचारेमिटैफलचखनिमिलना
ईजोयहकियाचितठराईजोकोईतिमरनोतिचरवहीनपरै

स्व
१६

नदहित्र्यसूलक्यौरकीनमिटैनिमरयहजननविवारयपांकरवचन
खितअनमरैसदानयनजिहिंनीर॥ प्रवाहमोयहज्ञानितसदानि
र्वाहवैदिहिजानन्॥ उदरसेकोषयमिवाउर्थअर्थनहिमोचे॥ ४१॥
दोहा मस्तकग्रीवापीठिकटिसमताकीजेवारीवलकरतनवमेथ्र
नकरयईडापिंगुलानारी॥ ४२॥ चतजोतिदिनदिनअधिकाईदि
नराकनीमध्यानठहराईवाहेचदउरवनहियावैसुनिगिर
ज्ञायहजगतिउपावैकासुपदीरंगद॥ सोकरावैतायकेहृदयमां

१६

मनालावैमंदिरनतमननहीन॥ग्रातेतिमनउजागाउमयसमातप

ग्रद्दारअंतसिक्रवोथयसंगमसंदकाध्यानग्रगाथयद्दष्टपसार

पलकनहीषरकयमीनलनीरनयननेनरकयननतनीरता

याकेचलैकछपककीचरतामेगरलपजवग्ररोगकोजानेवि

दहोपग्रवसवषप्रतिकीहृदारारिनकोद्दिनिपउपाईयातेग्र

धिकमनोरथधारीकरतविलासग्रनेगनद्दावेवद्गतकविस्र

खगाककोरपावै॥४३॥दोहा॥प्रथमहिरिनकेग्रादहीरोकिरहै

सु·
१४

लखुनीतपुनिग्रेंउनकेहैठहीकरैकछुकातेहारीत ॥ अथ ॥ ग्रेंगलदेपक्वशी
करवामोतरजनैंग्रोरमध्यमानामाउभयग्रेंउननतरदोउगाउवैलिंगापी
ठपरवहननयावैंयांभिमूतपांकेगिनमोंउपगिनकेंग्रेतमूतकोंक्काउ
पमामपेंघटपहविघिदानेमथमग्रेवंमेहेमवितमानैहेनउस्मपह
वियउपजावनग्रीषमकियें ॥ ग्रीयकदूवषावनकरतमसंगाद्
वतजवनानै ॥ हैपमिनठानेविधंग्रामैजिहिंवघमयमसूतकौ
गावै ॥ ग्रांमतवीजनामविधिभाघयहेपसिफलताईईरहय

व ४

१४

प्रतिकृतिनकरयकेलिंरितचहृयफिरजातैजनवद्रवतअग्रनेग
न्नरतहीनजयजवतीकोसंगफिरजाहीं॥ विधियामतहीयरै
वारतीनयाहीविधिकरै॥ अथ॥ दोहाजबलगरैछादोपवितजवती
भगवैकेतदिनिक्तिनमासप्रमानलगद्रवयनगिनकेअंन॥ अथ॥ दं
तकठिनताचाहैकेरोऽठसवैरमातजवहेर्भअरथधिनकरअग्रं
न वुर्धदेतदविंवारचयकठिनकरतेऽठवालरदद्रावैगाविभवेला
रमत्रवकीपरथीयनोविपदेंनकाष्टकापाछैपालैजीवैजवलग

सु
१५

देतननन्हालेइ वैलम जितिविधिउनि मामदेयइ अवमह वैहुलाम ममिस्व
रमा तलाव नन्हांलावै निर्मल होय मनहैं मेंजावै ना मपविधा सुख
ननपावै जीवन नवै सिद्यास जो कामम उपजै वदन ग्विहोमे नामना
मानीर ममिस्व लावै निरमल होय मन मैं ॥ जावै तुलकान मैं राखै
कोई स्वव गामैलनि हिं लागै सोई सु सैं लाव सेंमां कुछ थेरी ॥ अंजन
दृगहर विथाध्य नरी ॥ ४७ ॥ दोहा ॥ सीतन अंग जिहिं वापउर ईं अव
गान मैं कादि ताध्यान केंछवथर पउ सदा वैइरवादि ॥ षट ॥ उत

१५

पतिमलयअउकेमांह्रीतैंसर्वैद्वादसरामसलगाईकोईयत्नतमम
ध्यमहोईनाकाजसगनतसफलहोईराममममरासिअकामनि
वासमतानोस्वर्गवाटभयातासवीसआटतहांहेअस्यानयशविं
सनतवग्रमानजोगनजास्यानकाहोईव्यापैनिवतदिमाशगो
सोईनिसभवारहरासलगारोयेपुनिनवग्रहतहांफेंहुवोगोव २
सतहीकछुईनकेहाथगनअस्यानयहेसमसाथसोईसमा
रसोंसवैवांथयेफिरतसवनदसचक्रहिसाययअस्थिरहोय

स
१८

नकरयवसेरासर्गकरयसभराकैफेर: पूजीसाधिदिनरैनकहा
ईफिरनसकलातेनभमैआई ॥ ४५ ॥ दोहा ॥ हादसमैषटदिवस
मैयोषटभोगपरातिकैनकयटिकाअधिकरातिकैनकहीन
कहाति ॥ प-॥ कोईराकपुनकोईयकनारीराकमासरविभोगैं
मारस्थूलरासिवहेदिनआवै ॥ बटैमिनवधिवमवदावैंजोब
टदिनबटआवैंनवाटपसिनाहीनदिनकैनलघुदीरवजो
होपसमाननहोंरेननतरममतानाजाननहोनवमहकरतनि।

१९

वासभोगानसर्वद्वादसममासेकोईपकअग्रकोईपक्वातकोइपक

सोमकोईप्रतिपात्तकावहुकरासिपृकयहस्थावैकवक्रकोद्वे

चारदिषावेकवक्रपचआरखटजोईपृकरासिमेसेकलरहा

ईकोईपकअग्रापमाफहिनकारीकोइपकमहावेवसैचभीकोर

पकदहृनवैरीमानिपेड्रहयसारकौनकजानिये॥५१॥दोहा

जोगुनहैंग्रस्थानकेउनममध्यमनीचनेसमभयायतग्रहिविप

हताकौउनपतिमीच ५२ जोईनकीगतनीकेजानेभूनभवि

स

१२

षाऽभय वितन्याने जो कछु यह विस्तार ब्रह्मंड सो सब प्रगट मान
ष पिंड मे देषी सब ह्वै देषी वा कहियें मिथुन तें ग्रभ सज्ञ गपा नील हीये
कर्क रूप ही का ती स्थान सिंह उनद र केन्यान मजान तुला रासि
कट वृश्चिक गुह्य धन विविजानहु मगर ट ही सह ह्म पिंडरी मकर कुं
भ यद दोई मीन स्व वगा न्नू रु सब जोई नाम है तो बरन हिंपदव ह
राई जानत जो गीया के भाई जो कोई भेद लखा य चाहै ता कव षीप
ह क्रिया निर्वाहे ठो रथे कंति स्मान मन करय वनजं नन रस्ववगा

१२

ग्प्री २

नयैतहंउजिम्मुगावजैनकीतैसंग्रहसदअधिपारालीतैसं।
तत्र्मसंतसंगसवतागैविंतासोचनवितअनुरागैसवकारहुअसे
सारीतजैग्रासनवैठिनिरंजनभजंसविविधानअपरसरहय य
ग्रासनतैउठिग्रंतनवदयमनकोध्यानकरयठहराईअंतर
लखपरूपपदभाई ५२ दो ओकरूपनरंगविनुतहाँप्रग
टसभहोयेनभनदवयग्रहहरासकीनहां सर्वगतिहोये भ
नवग्रंतरगतिसभयलखावजवमवगतिग्रसंडकीपावैम
लाहुरासभआगमजानेस्वर्गभूमिपातालवखानेसतगुरु

स॰
१८

रूपमसमयेहोईतवयापदकोज्ञानोकोईप्रथमपविवदेहमनुकरेश्रा
मनसाथियानयनुसरैविनुश्रामवतवहोपनसुयश्रमिविचार
जोज्ञाननतुथनमेवीमगाकश्रवयरोमवनमध्यनुतममोकरै
राकराककेसाधनश्रोगुरूअनेकसाधपसवठोरमोजनप्र
यकरैलछुमदावैदिइकानमगतजज्ञदाकोईयकसमैंकेरठह
राईदिवसरैननहांवैवैजाई ५५ दो॰ हेमकरूमसाधयप्रथम
भस्मश्रंगमभलायवज्रकोटावांधिदिटमेंगतिलोकतज्ञा
य ५६ हेमकर्मकाश्रासनपहीकरयनाममहजाश्रनुने। १९

हीपीवस्ससकटिस्रमानताकीजैपीड़भीउपरीपिउवीलीजैवामव
रतकीपडीजैनदहनेआननसाषैनोनदस्तिनराऊवामीजानुवि
विकराविजैप्रमाननिर्गमस्वस्कोकहूराहैसहोनप्रवेस्सनवहोय
सहेसमहेससहेसराकगत्तिसाथयनिर्मलहोपनवग्रनमय।
२४ नागेजजत्ताजा।विविषमनाभागेभ्रलखकरहूजेभ्रवराधैक्रिया
वैठनजगसनसाधपभेदनजगसनकहेसमकाईप्रथमसहिजात
वैठिकथाई ५७ दोहास्नष्टवामकरवंधिकैदहनेजापरयाय
दक्षिणाऊहनीतापरधरेकठकनदाचाय ५८ पनिकरदहनी

सा॰
१९

मूरिविंधावैदीजीतलैमहितवललावैचूरनमुगाककुकविनका।
राईनाभिमैविपीठसो लाइवासाग्रमिनाभितर जानैनहासेपव
नमूथेनीयानयेहोपलीनर्धयासुभनासेस्वरूप ग्रलहतनहाअगा
मैम्रथषटषटिकर्मकरयजोसंतवैठपद्मासनकमठतुंनवा
मैज्ञानवैवैसोईतलवापदचूनरतलवैहोईचरनदत्तगाउर्वीपरथ
रेदत्तगाजानुठागासोकारेदहनेपावकीराजीमलीरहेवामपदअं
गुलीयनरलीदहनेहैजानुपरदत्तनहाथवामपादवामको।
साथदेहेसवदसोवचवइचारेदहिनतेंउनस्मरनुसर ५९ दोहा

१९

किरयाँवैदिवमरदाहनिवारवारपहृथंयमस्तकममनीह्मयेकरैवि
गंकरैयंत्रस्कंध ६ होठभिनकरवायपदततापाछेकरैकंठिनतउरेत
गीवाक्षिफलीकहूआवेद्दिदेपवनकोउपरचलावेयाहिविधियोगी
करयविचारहोवैलेनसमाधिमंकारकमंनिरंतनसाधयानेतास
क्रियागिर्भासनमानेमातगर्भतेंवालकरहयताप्रकारगर्भासं
न३ मलहैवामचरदक्षिणापगउपरधरिरजगलपनिराडोउपरम
स्तकजुगलजानकेवीचकडेनीविविपीजरकेवीचआँवेना
भिपीनगहिपातहांउमयपारागमूवयानपरजाहै उरपसहना

स॰
२०

मीतेंकीनजगमेंजगमजोतिनीरंजनकीनरोकथपवनउदर नैंपैसैऽर्थवद्धावद्दिम्रर्धसदतैंदै ९१ देहावारवारयहिविधिकरय ध्याननिरंजनत्नायगोपम्रगटनहीब्रह्मकुंदेखैसहजसभाय ९२ कामक्रोधनिद्राभयक्कुटैभूपतिज्ञानमलिनताटैरैजीवसिवरा कगतिहोईः साधकयहविविधिसाधयकोई॥ग्रथचक्रकर्मवा कहयजगतयेककरदेखैवक्रीकर्मविधानविधानविसेखैतोत्त होन्नग्रधिकाईदष्टमध्यसमस्टष्टमाईवैदिकतासद्धिज्ञानूकर यज्ञाकारजोरनाभिरतरधरपीठग्रीवसिरसमनाकीजेदसो ९॰

या॰ स॰ २

दिसाहोसअवलोकनकीजेवर्षराकलौप्राप्तउथाईगौंकाराप्रम
नक्रियादिठाईगुणअनेकतहांप्रगटलखावै योगीआगमकौं
नवपावैअघातिवलीकर्मकरयजोसंतआसनपलथीवैठितं
तउभयपाणिजगजानूधरय॰ आसककुंपीठबराबरकरय ९३
देहानाभिअपनेस्थानहीउदावैजगतसिंभारवलकरतवैमेंपु
नकरयईडापिंगलानारि ९४ जवविविग्रंथसेरठहराईअनभ
भयगतित्रवउपजैआईनानाविधि॰ सतवनतहांप्रगासैजोमन
रोकयहक्रियाअभ्यासैयअथगोरखीकर्मकर्मगोरखीयेनवि

स॰ २१ प ३

धानैवेदपपन्नासनजहांज्ञानन्नलवाउभपपरस्पर॰ करै डीवि
विन्नंउरननतरथंधैरोहाथ्यगुगउपरपीढलवैर्थननासान्नागदीढम
नैस्लककक्कूकन्नधोकोंकीजैध्यारकगातहाल्लिवोलीजैरमवा
दंतन्नधरूमभवांधपज्ञवलगपवनउर्धकोंसाधयकारयवफूतवल
साधकधीरत्यागयमारगानाकसमीरतातेंडगनउर्धकिरलेई
प्रातसंकयामेमनदेईदिनप्रतिऐसीक्रियाअरंभयऔरकाम
नामनकीथंभयनासपरोगऔढवउपदीरछ॰ जोतिनिरंजनप्र
गटैसीच १९ देहान्नथकन्नाकोचकर्मकर्मन्नाकोंचनसंतको
छोर२

२१

साधा यवितदहरायकमलहृदैकैबेरपेनाडीउर्धचढाय ९९ ग्रास
नसिधज्रुबैठंककहीतासज्रगतिचक्रीमैकलीमाककमलगग्रग्नि
कावासश्रोसरपवनतहांग्रगासमूलहारकोउपरसै – चयग्रगानू
तरतासंगतिश्रैचैयग्रधोकमलकरेउर्धमखाउपजैग्रग्नि० होई
तिहमखाज्रेगरिष्टमलषिविकारापंडेसर्वजरहोईक्षारागसेज्ञ
बेरणापोनिरंजनसाधयपहविधिपावैग्रजीरणग्रयग्रनाहदक
मेंसदासमैंराकांतसोकरेजोनरश्रवणग्रानाहदधरयेवपढक
तोंकीकेरेउज्ञानूविचितलवापरनूतरग्रानूदोउहाग्रश्रवन

45

स.
२२

नपरथेअंगुलितर्जनीपाहैकौरे ९७ दोहा किंवामिरवपिमायवैं
उपजयनादयघाये ९८ तिसिदिनमगानरयेपहिध्यानवाहैवहि
होयविज्ञाननाकीमहिमां अनिहिंअपारावरननकोंनकरैवि
स्तारा अथातिसवदकर्मकर्मनिमिवदसंज्यजोरहे आसनपा
लथीपुहमीअदेकटि अरुपीठवरावरकीनैदोनोंहाथअप
मैंभीतैकह नीउभयनाभिअस्याइंग्रुगअंगूठतरहोडीरहहंव
यठकअसीआसनसाथयब्रह्मरंध्रकाध्यानअराध्ययअमरहो
यजोपावैसोयईपरचोगुरुकोजोतिकहाई उत्पतिप्रलयओर

अस्याईतिहिंकेरथेसोसयाहकराईकेनकब्रह्मरंध्रेमनिकाहेकेंन·
कभंवरगुफागुनिरहेंमेरुईकेउपरसोईजानैताकोंविलाकोई ९९
होहाजिचितजाहांहदावईअंमतनउनरतावीचअमतहोपलवर्ल
पकैंगुनिरापिजन्मनमीच ॥ अथमीनलीकर्मसोनलीकर्म
कौरमनलाईवेढनमेहाकमलासनथ्याईएछंदपगवामाजानू
कटिकेनिकटवगावरमानूपष्टवामपदद्नणअंगजावमूलकोंएव
चैसंगकरपरकरपिंडरीपैघएवयसनमुखनाभिसंमुपोभाषेदोना
अचरजरावैंरवोंलैंदंतरतदसोंदामिनिवोलैंऊंभकपवनवाट

सं०
२३

सुखकौं० सकलअंगजौंलौंसंचरयअधरबंदनासामगकुटपथा
नैपूानैजलगुसमघूंटैसाधअधिकअवनपथसुकैसक्रियाज्ञगति
नहिंचूकैंयातैंअधिकनपनमगतातैजोहठक्रियाविक्रमनरागैउ
रसुधजोचाहपसंतमूलहारकत्तजैनरंत ७१ देहासुषमारगश्र
ककरेअंचैंमारगचारअनवनसुखतहांपावइसीतहींकामंसिभा
रि ७२ अथभुजगाकर्मकर्मभुजंगमआनेचितताक्रियाजोसा
धधनिसवैटहिजानसुखकोंबाध० पनासारंभपवनकोंसाधयअैं
चसमीरनाभितरजावैफिरवलसहितउपरकोंत्यागयपंदसमैंहार

२५

व

जोपहूंचपसोईसनेसनेतवमुचनहोईजवनाभीकोनीचैजाईता
हिक्रियाफिरउर्धचढई वारवारजोपहविधिकैजवलगसाधका
स्वरकोधैसक्रियप्रमानपवनकोराखैपाकूपसनैसनैनाकमग
नाखैउहिंविधिचढ़रोंपूरकलेईनाहिक्रिया॰ फिरतेहिंदेईसा
धकक्रियाहाथजवष्मावैदिवसराकलोंपवनरुकावैवकुरोश
धिकमूंचस्वरनाखैंदिवसपंचषटवारनाखै ७६ दोहासज्ञादन
रष्मावकीस्वासापनवप्रमानसाधकईहिविधिसाधईदीरघष्मा
सुप्रमान ७७ पूरकाक्रियाकरयजासेतहलाकानननसभहोयन

रंनजयसेतल॰ शलद्विडिजाईतयसेसंतनीरउनराईवैठकस
हडुपालथीवैठैप्रकपवननाकमगपपठेश्रैंचैपवनउदरहला
वैसर्वदेहमैंवाविलावैनासकास्वरकौंश्रैंचितरहेसर्वदेहमेमा
लिवोवहेजवसमतनमैपवनसंचारैतनवउठिग्रासनकाजविस्तार
पराकवर्षनितप्रतिजैसाधहिजगकीतिग्रानंदलहीजैभ्रमसमा
ननीरपरजाईसर्वदेहकीव्याधिनसाई १५ देहाग्रथत्राटककर्म
त्राटकमेसिंभारियाग्रासनपलथीलेराग्रंगुलीविविकरयेंचकैं
षीडरीउपरदेर १६ ग्रैंचस्वासकुंभकहीगनैंजवलघुपवनतालु

काम्रानैंनहोनेम्रैंचमस्तकाहिंजावै – ईनाकस्वासरैविंवेम्याधिका
ईम्रगुषुनीरजनीमेजोलहैंविविम्रंगलीकेनासकागहैनासाम्रग्र
रहपतवनांईजवलगवापमाग्गुठहराईभिदपक्कुवुद्धिः मलीनर्त
सवैचितकाभर्मजायघुनितवैम्रतिः विज्ञाननतहांघगासैंस्वर्गी
भूमिगनसर्वंग्रभ्यासैंम्रथ्यखेचरीकर्मेकर्मखेच[illegible]रैम्रंभजानेंहो
यपवनकाथंभरंधतालुकारसनाम्रदैंजाघुनवा॰ यदेहकोमदैर्त
कीक्रियाकरपइहिंरीतकरैवचनसंकरप्रतीतिरसनाघ्यममास
वटलावैसिंदावालवाननामसोपावैं ११ दोहानामंतामिरच

यिस्मयकैं मलैह्वारावितविवकर मोथोवनकौरेम्प्र स्यनराखैवित ॥२८
वस्तरमींजैजीभपुनिडुह्रिगावारहैम्रैविदोउकरगहयेवाहैरसनाको
मलहोंई खातनवोलैमथकसोईकरम्प्रगुहत्तजेनीजोवराखैपदोनो
वेईनंखतोनरसनातलैस्पिगाहिना मराकम्प्ररुनम्प्ररुहूजीस्यामता
वखकरदोनोरगकाटयकोमलहोपलंवीकाबाहपउधतासिकाप
ऊंचपसोईप्रथमंपूरकमारुत्तसोईन्नालकरंध्रजीभसोंरोकयसव।
जिकारंध्रसामाईकुंटनपवनरोकसमजाईग्रीवांहाउठोडीसोबांधव
रोकपसमीरवधेलोसाधप ॥२९ इहिंविधिजोरसनावधयनालक

रंध्रसमापथ्यंभयपवनघकवर्षलगरहैसमाधिलगाय ८० अथासि
द्धासनसिद्धासनआसनकोलक्षणभदोनैवेठकतासहिजानूमानेवर
नपछजोदच्छिणकहावैवामचरनकान्नलबालावैअधोन्नलरोडी
दिसनतहांदोईअंडनरदावैतहोरोकपवाजेमूत्रकीनाडीविविजान्
नरधरयपसरीतालुकरंध्रनोरसनारोकेंताकीसधिउनिन्नहांअ
लोकैमिटैअवेनचिन्नभारीनासैक्षुधापिपासासाबीजरिवोअरु
नंन्नूनभासयसीनउलस्यालसडरनामसयसकालहंहतेछूटैसोई
पदवीअलखतासकोंहोईनवपहविधिभ्ररकसाधयभूसमलाहू

स० २६

नष्टमैंलाधेभ्रमस्वर्गगांकेपदहोइगुरुप्रसादमाईपजोकोइ ८१
दोहाज्ञगतिखेचरीसाधिकैहोपनिरंजनलीनदसमैंद्वारम्रस्या
ननभघगटजोतिनिहाकीन ८२ म्रथरकटकिक्रियाक्रियाट
कटकोइनमकाहीपदवीसाधसंतजनलहीसाधकप्रथमशात
उथाईवैठकप्राच्चिदिसाकराइदृष्टपसारलखैविधातासहौवे
मैंनपवनम्राभासककुविलंबकरमूंदपनैनपुनिपसारदेखैन
भतपमज्ञवलगुसूरेपंदुदगासहि० रवाईनवलगुसाधकक्रिया २९
कराहूनिमलदृष्टिजोतिबढ़ेहोइगनम्रनेकसाधजोकोइ म्रके

भकककर्मकैंभक्तमोतिकहोंसमभजरईज्यो॰ पासाधनंकाउपाईप्र
यमवापसभक्तअंगानेजतीश्रौचिकिसोसूर्यभूरककौरेतेतीसनेस
नैजवसाथें श्रानैजोवतकरयश्रंगकैंईभामेजवसभपवनतुर्ध
कोंजोईतालकरंधजवरसनालाई ८८ दोहासनेसनेतवपव
नकोंमृचिनासिकावाटसुनिश्रारंभप्रककरेफिरत्यागैनि।
हिंवाट ८९ श्रपश्रासनश्रासनसमाश्ररंभयसंतछुपेजेवडव
लसिरातुवंतमजीगीवप्रहवलभारीश्रति श्रोसाउदेहहदर्स
रीपाचकअंनश्रौरंसभभोजन होयतासकोंसाधयजोजुनद

स॰
२०

ह्वानचरनपिंडरीननतर्भैवामजंगायतरल्लेदहत्याई ३ हिंविधिवांमदा
हनीदिसहेहैथीरैपीरैक्रमक्रमभभ्यासनु सर्वप्रथंमअभ्यरभैकादिनतार्ल
गयविढयोनिरास्वैपुनिस्वरीडभयपानविविजामूधरीयांपुनिभ्
जाकादिनयताराखैकरिरैंमाचसभुयांभांघेजोयाअभ्यासनवह्
लगावैप्रकातिइनकीनुरंतवढावैबोलिवो ध्योरामदलत्यृत्वा
ईसोवैआत्मनीदसभजाई ८५ दोहालघुभोजनलघुबोलिवो
लघुनिंद्राजोहोयकहै मोहननतापुरषकौंबुद्धिप्रकासपुनिहो
य ८६ अथवक्रासनवक्रासनपुनिवहुरोंकाहियेजाकीक्रियाजेसी

बरलहियेपल थीवैठदद्दनरज्जौनवांमकंयदि सषीवौंतौंनवाम
पाददहनीदिसल्लीजैविविकरगीवांबंधनकीजैपीठकठोराकिये
निजरहियेनामअमलखजीभसोकाहियेकोहमवेसीनासुरसासे
हिजनअजितवरनपुनिनासै औरोंव्याधिपिंडतेजाई काया
निर्मलिसुचिसहदिवाई मध्यथंभासनथंभेसनजोसाधनाकी
महिमाकही आगाथंवैठकपलथीसाधनकरैपिंडरीयनकेवि
चडभयकरैधरै करभुदेइअंतरिदकीजैरसनानामअमलख
कोलीजैप्रथ्वी नीरअंसचटिजाई तजागुनसहनअधिकर्ल

स०
२८

हाई ८७ दोहा आसन बज्रासन विधि साधइ आसन पलथी वैठि विवि
करग्रीवां बंधि मे पिंडरी जांघ मैं पैठि ८८ मूलकरह पभूमि के सा
हि साधय क्रियावैठि कै कांही दिंडर न नहि होइ चमस चनरपदजंत
न कोई समभव परन उत्पात त्रास समय जाइ कीने अंक पनि पुह मिप
राइ अथ सूतनासन पदवी उंचल जैसीसंत साध पद्मासन सुमपत्त
रेरत विविकर मूठी बंधन करै नापा छे पुह मिपरध रपउ है भुमि नैं
अनविस्तर है रटना अलच ताहां अवगहप वाम चरको अंगुला लेइ
वाम जहनीपर भार देइ ऐसी जगनि सार हताबे नाम अलखजी

२८

ना

भैसैं मगावैय देहि देवहोयता नरकीकछुम्रसक व्याप्यनहिंडर कीस्वर्गंघयालम्रूमिसोगीमी जोइहिक्रियाहोयअभिरामी ८९
दोहाराकवर्षम्रासनभेदजेतेसमकहेवकापसुनिगीरज्ञा मवेदेहकीपवनकिक्रियावितलाप ९० इतिपिंडज्ञानजोगा भ्यासवर्णनंम्रध्यष्टस्नावलीतथा वामदक्षिनस्वरज्ञयातत्वविचारबडुरोष्टलकीहूगिनंदनीनमितसीस आतिसहितम्रनंदनीभोग्रभाकीनीक्रियाम्रपारा भ्याष्योमपिंडज्ञानविस्ताराम्रवम्रवतीकेजोवाछकामभामोहिहोय अभिराममसीहिचग

रि

न

हवारसः ध्यावनीयाजश्रुतियोगविरुधासोस्वरभेदसधियज्ञैसैक्र
पानगतिघभोभाष्यैतैसैभाषतसभ्रगौरि घतिवीनीजासैंसवहि
सधिराहिजाइ स्वरविद्यासभविद्यामातादयासिंधुजगतकीदाता
सनितदेवीस्वरोदयज्ञानाजातैसाधपव्रह्मकाध्यानाजोदेवज्ञोहे
यस्वरहीतामदिरनाथविकुनावक्तासावहीनजोहोइ ज्योनर
हीनसीसवघुकोइजोस्वरसाधकाजसभकीजैसकलमनोरथ
वांछितलीजै २१ दोहाचंद्रसूरविधिविनासिकाकरतसर्वदावा
सईडापिंगलासुषमनानीडीनीनप्रकास २२ वामाअंमृतरू

श्री

पत्रस्याईविषमदत्तनउत्पातकरईमथीनंतनष्टकाजसमभजानें
नहांसमाधिब्रह्मकीमनैाभानविषमसमशंडुकहियेनरणशुहलव
मशिजारीलहियेनिर्गमपवनाइडास्वरवामाभानप्रवेसउभस
भनामाभूषनवसनऋौरलेकारादानविवाहमंदिरविस्तारादर्स
नस्वामीमित्रगुरदेवग्रहप्रवेसवाकरकीसवकृषीआरंभवीज
कावोवनसंग्रहद्रव्यनारीकायोवनयागपश्चारंभदेवस्थापन
दिक्षाग्रहमंत्रकासाधनरससाधनविद्याआरंभमोक्षनीरकृ
कीजैथंभवाजीकरनकलाकोयाचनजेसभकाजहर्खउपजा

स॰ वन ९३ दोहावारीवागलगाइयेश्रोरफूलवारि अनेकतालकूप
६० वापीसकलदेवालअरटेक ९४ गीतनादनृत्यअरुवाजनदेषीद
क्षितज्ञायकोइसाजननिधिअस्थानहथीकीजैसीभञ्चरगाडु त
षितमूरकछुदीजैजैतेसभसूभकारजकीजेवंइग्रबाहरडास्व
रलीजैहोयसुफलऊसाततनहोई काजसाधस्वरकीरेजकोईश्रा
भिन्नभासविवादकरोरीजूवावेलषेटकअरुचोरीऊंजरअस्व
सकटरथवाहनखेलनयंत्रमंत्रमंणिवाहनविषसाधनअरुगा ६०
हनगहेदेनीवाजमोलजवलहैश्रोरपुनिडंवमहि षगोदासी

लेतभानुस्वरहोयविलासीमैथुनभोजनग्रहस्नानकेजैयुद्ध
दस्नानस्वरजानसपजकीजैव्यवहारासाधनभूतदेवसेवारामार
नउचाटनमोहनथंभस्तूरजनाडीकपरयारंभ ९९ दोहासारगार
सरितातरनकोग्रौरकूरसभकामतेसभसार्धनकीजियेनाडीपिं
गलानाम ९८ जोस्वरजगमवहेपकरीतकरघनकारजमानि
प्रतीतिकिंवाक्रूरसोम्यकिविविहोइनिस्फलिजापकरैकोई ग्रपण्ट
स्वविचारजोककुरवसकरैकोउग्रातदीजेवचनज्ञातस्वरजानहु
रवादव्योवहारउत्वारीचोरनृपतिकाजोडु भारीप्रदातजोस्वर

पूरनहोइउपजेग्रासलक्षोग्रहेभयसोइ चंद्रकेरसमनअन्तरजोनो
विषमभासकरकेपहिचानोजिहिस्वरप्रस्नकरेमनआइ प्रथस्वास
मनोरथपाईनाषीस्वतकाजसमनासै अन्तरविषमकिप्ररनभा
सैप्रधदानमधिउपजेभारीपसमानछन्तपतिभिस्वारीनाकीप्रस्न
जो पूछेआईप्रथमनामपूरनजयपाईजोस्वरसखमएस्उपजा
व अतिनामकोअतिजैपावै ९७ दोहाउछ्इतेजोनष्टहैकिंवाहे
यविदेसकेतनभंगसंदेहजिपनाहिमदकोश्लेस ९८ पूरणना
डीप्रस्नजोकरयज्ञसलदहसंदेहनधरपवनप्रवेससमेकछुजो

नूवातस्मतिस्मानंदहोपङ्गसँज्ञाननिनामपवनमाकतेंजाहृं म
धमपल्लताप्रसकाराईप्रसवरपज्ञोम्मदारडनेप्रसकलीनना
डीकेरास्मंतिनिमीतिहोपश्चनिचनीतासप्रस्मनहिज्ञीवैध
नीज्ञोपसृजीवग्रहैकोवृम्भावे पसृम्प्रकृठतासारगज्ञावेवि
नसंसपनरजीवृनहोई प्रकुकप्रसज्ञोप्रणीकोईप्रष्यमहि॰
दिसासन्यस्त्वरवेठं श्रुनिप्रकुकडटिसूरनवैठैमूक्लांवंतभयो
श्रुनि जीवैस्त्वरसाधिकरडर्धाहिपीवेवंड्रस्यानहोयज्ञोवा
ई प्रकुकसृजैवैठकप्याईसैमीमरेमूरनहिलागेज्ञोसतवैछता

सं॰ ह्रिम्भनुरागै ॥४४॥ दोहा नाडी पिंगला वहत ताहां प्रहून सम्पि चरहोय
४२ जो अनेक रदा कैरे जीवै नरौ गौ मोय ॥७०॥ नाडी जीव डखी कीवा
नप्रकृत आनना सकुसलात जीवै मोई होय आ रोगी ग्रसो अनेक
रोग जो रोगी स्याभ अलाभ जया जय दो ईता मां श्स जो श्रक्के कोईर
गी४ विसमिमाईय प्रमान श्रकृत सभ जो परमस ज्ञान अथ राममविचा
वर रंहैर गवन सम्पिनाडी कीजे हरे विष्ठ सव्हर्ष लहिजय समैं प्रवेस
भानु स्वर नीका मित्र उदात सत्रु सम फ्री का वा मैं तैं जवदद्दिण आवै ४२
केदहिणतें वांमीं वां जावै तां को नाम संक्रमणिक हो सकल भांति सें

संतनलषोजवसुरपलटि संक्रमपिहोइंसोपदम्रगुध्यारेजोको
ईतासुजात्रासुफलवखानेसंक्रालसिद्धिताकाजिमीलै ९१ दोहा
जोसुरहोवचंद्रकूरचारवामददेयतीनातरणकौम्रंकैगमनसु
जात्रासेय ९२ पूर्वनतरदधिसुतवावासदक्षिनपश्चिमभानुनिवस
प्राचिउदीचचंद्रणहिगमेजामिथतीचभाईनहिरमैंजामिथती नु ४
चइडापरवाहाप्राचिउदीचपिंगुलालाहासुनमुखसूरचंद्रजोच
लेहोपहानभयविविकरमलयम्प्रथगुधकीहसवामेउर्धम्रग्नि
न्निहिठोरईडाप्रवाहमंदरशाखिगोरदक्षिणनीचिपीठजोनाईना

डीपिंगलारविचारजोईजोदोइकरटकपरस्वरलेंअधिपतिसैंननदो
नस्वरकरकरै जोस्वरनाडीपिंगुलाहोइ प्रथमहिकरजीतसोई१
जोस्वरईडानाडीमैंजानै आपुनसमस्तनवहिलाठानैंप्रथमशत्रुजो
समूपहारै पुनिपश्चानअधिपतिहिमारै १३ दोहापौंविविअधि
पतिसैनकेजोस्वरहोयसमानकेजेपावैवडुवलीकैविराचिपमा
न १४ आवतकटकसून्यकिइंलोगमिथ्यासंचनमानवियोग
धूकुतआयधमलनरकोईमिथ्यासून्यपुर्वफलहोइअथराजद१
ध्यानएहाजोकोइ: नपतिसिद्धिराजाईआपनताकरनामगता

ईजरैग्रंकश्वरनसम आवैसूरजसुरमैताहांसिधावैसोईचरनअ
घमआगेगास्वैरंमीनपैंडसमतासैंनाखैंजोवैअन्तरआवेइनेस
सिस्वरचरनवामपदइतेजहाजायजवसनसुखहोवैतवफिरई
डापिंगुलाजोवैबोलेवचनसूरलवपौनाससिसमावमैंकीजै
मौना अथवारतिथिभोगविचारजोसरभातहोयसंचारीसोई
चरनधरउदयसवारीदिवससमस्तहर्षसोंवीतै जहाजापसम
कारजजीतै १०५ दोहासप्तवारतिथिसातनवद्वादसरासिअ
माननेशासिरविकोंभोगावैविलापावैजान १०६ सोमअशुक्र

स॰
२४
दै

गरुडंडावसाना मंदेभोमरवीराच्चरपहिचानोजोदोउरंडनासिका
ववैंमत्ताकोवारचंद्रसतलहैजबदैसरशुनिवैहेसमानचारन
धरउदैशुमानअन्यःवारसूरमानेचालैरमयनअनतदेह
प्रतिपालैशुक्लपक्षप्रतिपदाअरंभहैसपक्षआमाचससम
प्रथमचंद्रपाछैरविजानैतीननीततिथितिथितिनकीमानै
कृष्णपक्षसूरजअधिकारीशुक्लपक्षससितहोउद्यारीजोस
सिस्वरमैसूरप्रकाशयकैरविततिथिमैचंद्रआभाषैं यातिउद
वेगहानिउपजाइंचितउचाटनककुनादिसहपर्इकन्यामीन

२४